



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49| नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2008 (अग्रहायण 15, 1930)

No. 49| NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2008 (AGRAHAYANA 15, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. आरएस./3/1/1/2008/80-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक श्री चन्द्रभान राय को 22 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400-67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन (अनंतिम) और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

सं. आरएस./3/1/1/2008/81-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप निदेशक श्री गुरनाम सिंह को 22 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय

में 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अनंतिम) और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

सं. आरएस./3/1/1/2008/82-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्रीमती मोनिका बा को 22 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अनंतिम) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अगस्त 2008

सं. पीएफ-75-आर(7)/जीएन-6096/एन-1/2008--
श्री क्षेत्रवार्ता जेठा, उप सचिव-I का 20 अगस्त, 2008 को निधन हो
गया।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 2 सितम्बर 2008

सं. पीएफ-924-आर(3)/जीएन-6100/एन-1/2008--दिनांक
01 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचना सं. पीएफ-924-आर(3)/जीएन-
5972 एन-1 2007 के क्रम में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II
श्री के. वी. जगन्नाथ की कर्नाटक के राज्यपाल का विशेष कार्य अधिकारी
के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 21 अगस्त, 2008 से 20 अगस्त, 2009
तक और एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी
पहले हो, बढ़ाई जाती है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 15 सितम्बर 2008

सं. पीएफ-3-आर(3)/जीएन-6102/एन-1/2008--अध्यक्ष महोदय,
37,400-67,000/- (पीबी-4) - ग्रेड पे 12,000/- रुपये (अंतिम)
के वेतनमान में कार्यरत अपर सचिव श्री एस. के. शर्मा को 80,000/-
रुपये (नियत) (अंतिम) के वेतनमान में सचिव के रूप में 12 सितम्बर,
2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 23 सितम्बर 2008

सं. पीएफ-114-आर(3)/जीएन-6103/एन-1/2008--श्री संजीव
शर्मा ने नौकरी की संसद में प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर इस सचिवालय में
15,600-39,100/- (पीबी-3) - ग्रेड पे 7,600/- रुपये (अंतिम) के
वेतनमान में उप सचिव-II के रूप में 11 सितम्बर, 2008 के पूर्वार्ह से
अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 26 सितम्बर 2008

सं. पीएफ-786-आर(3)/जीएन-6104/एन-1/2008--डॉ. डी. के.
सिंह, संयुक्त निदेशक (लार्ड्स) ग्रेड-I, जो कृषि मंत्रों तथा उपभोक्ता
अभिलेख, खाद्य और सांख्यिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) के वैयक्तिक
स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, की सेवाएं
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल
बोर्ड और 2011 वर्ल्ड कप क्रिकेट की आयोजन समिति के अध्यक्ष के

वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 26 सितम्बर, 2008
के पूर्वार्ह से प्रतिनियुक्ति आधार पर सौंपी जाती है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 10 अक्टूबर 2008

सं. पीएफ-6-आर(3)/जीएन-6107/एन-1/2008--अध्यक्ष महोदय,
37,400-67,000/- (पीबी-4) - ग्रेड पे 10,000/- रुपये (अंतिम)
के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त सचिवों को 37,400-
67,000/- (पीबी-4) - ग्रेड पे 12,000/- रुपये (अंतिम) के वेतनमान
में अपर सचिव के रूप में 8 अक्टूबर, 2008 से, अगले आदेश तक, नीचे
दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री आर. सी. आहूजा
2. श्री पी. के. शर्मा

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. पीएफ-87-आर(3)/जीएन-6108/एन-1/2008--श्री विपिन
कुमार, उप सचिव ग्रेड-II को 14 अक्टूबर, 2008 (पूर्वार्ह) से इस
सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात्
उनकी सेवाएं, प्रतिनियुक्ति आधार पर, 4 वर्ष की अवधि के लिए
12,000-37,500-16,500 रु. के वेतनमान में उप महाप्रबंधक (विधिक)
के रूप में नियुक्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी जाती है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 15 अक्टूबर 2008

सं. पीएफ-2273-आर(3)/जीएन-6109/2008 एन-1--
श्री चंद्रमोहन का विदेश मंत्रालय में आशुलिपिक के पद पर चयन हो
जाने पर, इस सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के पद से उनके
द्वारा दिया गया त्यागपत्र 15 अक्टूबर, 2008 (अपराह्न) से स्वीकार कर
लिया गया है और उन्हें इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त कर
दिया गया है।

2. इस सचिवालय में उनका कोई धारणाधिकार (लियन) नहीं होगा।
तथापि, वह सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26(2) के
अंतर्गत, इस सचिवालय में उनके द्वारा की गई सेवा के लाभ पाने के
पात्र होंगे।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 16 अक्टूबर 2008

सं. एफ-15/28/2004/जी एन-6110/ए एन-I--श्री पी. के. भंडारी, रक्षा संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहेब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव की सेवाएं 31 अगस्त, 2008 के अपरह्र से समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 21 अक्टूबर 2008

सं. एफ-15/28/2004/जीएन-6111/एएन-I--श्री के. के. भटनागर को 15,600--39,100/- (पी. बी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपए (अनंतिम) के वेतनमान में रक्षा संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहेब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 1 सितम्बर, 2008 से, अगले आदेशों तक, नियुक्त किया जाता है।

2. श्री के. के. भटनागर की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और रक्षा संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम रक्षा संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 27 अक्टूबर 2008

सं. एफ-15/24/2004/जीएन-6115/एएन-I--श्री जे. सी. जोशी, जो 9,300--34,800/- (पी. बी-2) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए (अनंतिम) के वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्यरत हैं, का पदनाम 6 अक्टूबर, 2008 से अगले आदेशों तक, विपक्ष के नेता, लोक सभा का सहायक निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. एफ-15/24/2004/जीएन-6116/एएन-I--अध्यक्ष महोदय, 9,300--34,800/- (पी. बी-2) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए (अनंतिम) के वेतनमान में श्री राजेश शर्मा को लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में सह-विस्तारी आधार पर 6 अक्टूबर, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजेश शर्मा की लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति, सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त होगी।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 04 नवम्बर 2008

सं. एफ-154/आर(3)/जीएन-6117/2008 एएन-I--डॉ. सत्यप्रकाश, अवर सचिव को 4 नवंबर, 2008 (अपराहन) से इस सचिवालय में

उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण वसूली अधिकरण-II, मुम्बई में वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2008

सं. ए-19013/05/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री पुनीत अग्रवाल, भा. प्र. से. (मणिपुर-त्रिपुरा : 98) को 20 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले चार वर्षों तक तथा अगले आदेशों तक, उनमें से जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 30 अक्टूबर 2008

सं. के. 13012/4/2008-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री अशोक कुमार रूपनवाल को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13012/1/2008-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री विजय कुमार बिष्ट और (ii) श्री सुधांशु धुलिया को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13026/3/2008-यू. एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री अभिजीत सिन्हा को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 11019/3/2008-यू. एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अजय नाथ राय के सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण, सिविकम उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री ए. पी. सुब्बा को दिनांक 31.10.2008 से सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. के. 13016/2-2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13028/2-2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री गुमान सिंह (ii) न्यायविद् श्री भंवरू खां पारियान, (iii) न्यायविद् श्री देव नारायण थानवी, (iv) न्यायविद् श्री रघुवेन्द्र सिंह राठौड़ (v) न्यायविद् श्री महेश चन्द्र शर्मा, (vi) न्यायविद् श्री संगीत राज लोढ़ा और (vii) मनीश्वर नाथ भण्डारी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2008

सं. के. 13020/1-2008-यू.एस. III--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री मुज़फ्फर हुसैन अतार और (ii) श्री विनोद कुमार गुप्ता को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. 14046/47/2008-यू.टी.एस.-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, ने दानिक्स के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल (जन्म तिथि :

11.10.1952) का दिनांक 13 अगस्त, 2008 का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार कर लिया है और उन्हें 13 नवम्बर, 2008 के पूर्वार्द्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी है।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. 14046/1/2008-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की पुलिस सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड में दिनांक 14 नवम्बर, 2008 से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के (संशोधन पूर्व) वेतनमान में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म की तारीख
सर्वश्री			
1.	सहदेव सिंह	डी-1/665	01.05.1954
2.	हरीश कुमार	डी-1/666	19.05.1953
3.	हरि दर्शन	डी-1/65	04.01.1954

2. दानिक्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित 3 निरीक्षकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में सी डब्ल्यू पी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य और सी डब्ल्यू पी सं. 11356-62/2006-जे. के. जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. ए. 12011/3/2008-प्रशा.-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एमआरटीपी आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री टी. जे. वनजी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.09.2008 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

आर. सी. टली, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2008

सं. ए. 32011/1/07-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सीएस-II के

अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का डर के श्री के. सी. चंदना एवं श्रीमती सुषमा सीकरी, जो वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय) में चयन सूची, 2005 के लिए नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2008

सं. 14015/13/2008-अ.भा.से. (1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) विनियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) विनियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा संवर्ग के सदस्य, श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को वर्ष 2008 की रिक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) विनियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-विनियम (1) के तहत मध्य प्रदेश संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर न्यायपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संगठन द्वारा दायर ओ.ए. सं. 375/2008 के अनुसरण में अन्तिम निर्णय के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2008

सं. एफ 24012/2/2005-पीए--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) की शर्तों के अनुरूप और इस मंत्रालय की दिनांक 7 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. एफ 24012/2/2005 (पीए) का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:--

1. श्री मिथलेश कुमार : उत्प्रास के विषयों से संबंधित उप सचिव (वित्तीय सेवाएं) मामलों को छोड़कर, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी मामले।
2. श्री विजय बहादुर सिंह : उत्प्रास महासंरक्षी के कार्यालय निदेशक (उत्प्रास सेवाएं) और उत्प्रास संरक्षी के कार्यालयों से संबंधित सभी मामले।

एम. के. पाण्डेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2008

2008 की सं. (फा. सं. ए. 32014/01/2008-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग के संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग के दिनांक 10.09.2008 के कार्यालय आदेश सं. ए. 12025/2/2004-सी ए एस के अनुक्रम में भारत के राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय संवर्ग की एक नियमित आशुलिपिक ग्रेड सी, श्रीमती अनीता गियानी को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक ग्रेड क एवं ख (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 22.08.2008 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये (पूर्व संशोधित वेतनमान) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में नियुक्त करते हैं।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2008

सं. 4/2008 (फा. सं. 21/29/2006-प्रशा. 1ग)--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार, जो पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, को दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपये के (पूर्व संशोधित) वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर समझौता आयोग (आयकर/सम्पत्तिकर), प्रधान पीठ, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. त्यागी, निदेशक

आर्थिक कार्य विभाग
(मुद्रा और सिक्का)

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2008

सं. 6(7)/2006-करेंसी-I (एसपीएम)--राष्ट्रपति, श्री आर. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) (सेवानिवृत्त हो चुके) प्रतिभूति कागज कारखाना, हौशंगाबाद को 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान (पूर्व-संशोधित) में मुख्य इंजीनियर के पद पर प्रतिभूति कागज कारखाना, हौशंगाबाद में नियमित पदोन्नति के आधार पर 28.6.2006 से 30.6.2006 (अर्थात् अधिवर्षिता की तारीख पर उनकी सेवानिवृत्ति) तक नियुक्त करते हैं।

ए. के. अजमानी, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. 13/9/2003-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री नरेन्द्र

कुमार, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण लखनऊ को अपने प्रभाग के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर का कार्य करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत करती है।

ए. शर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. ए-19011/256/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री सूरज मल, सहायक, रक्षा मंत्रालय, संयुक्त सचिव (टी) और सीएओ का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति अवधि को, चौथे वर्ष अर्थात् 15.10.2008 से 14.10.2009 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बलराम, अवर सचिव

सं. ए-19012/169/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त मंत्रालय संवर्ग के सहायक, श्री ए. के. शर्मा को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में, तदर्थ आधार पर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से 31.12.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधधीन होगी :--

- (i) कामचलाऊ व्यवस्था वाली इस नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी संवर्ग में बरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति, बरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित व्यक्ति के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जारी रहेगी।

बलराम, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. ए-12026/5/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री ओम प्रकाश (सी. एस.एस.) द्वारा वर्तमान में धारित पद निदेशक को स्व-स्थाने स्तरोन्त कर रहे हुए उन्हें 30 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से 37,400--67,000/- रुपए - 10,000/- रुपए (ग्रेड वेतन) में संयुक्त सचिव (कर्मचारी निरीक्षण एकक) के रूप में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 14 नवम्बर 2008

सं. ए-12026/5/2007-प्रशा.1--इस विभाग की 27 अगस्त, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 37,400--67,000/- + 8,700/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (4) में निदेशक (कार्यान्वयन कक्ष) के रूप में तैनात श्री आलोक सक्सेना आई. पी. ओ. एस. (1989) के कार्यकाल को 01.10.2008 से 31.03.2009 तक अर्थात् छह माह बढ़ाते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 19 नवम्बर 2008

सं. ए-12026/5/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री शक्तिकांतदास, आई. ए.एस. (तमिलनाडु : 1980) को 19 नवम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि या अगले आदेशों के होने, इसमें से जो भी पहले हो, तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रुपए वेतन बैंड (पीबी-4) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2008-प्रशा.11--राष्ट्रपति, इस विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक के नीचे लिखे सहायक उप निदेशकों को 18 नवम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से नियमित आधार पर 6600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में उप निदेशक के पाँच पदों पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम
	सर्वश्री/श्री
1.	बी. एल. शर्मा
2.	रविन्द्र कुमार
3.	एस. एन. शर्मा
4.	कुलबीर सिंह
5.	एस. सी. त्यागी

मीताली घोष, अवर सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. 1/5/2006-प्रशा.--इस प्राधिकरण की दिनांक 31 अक्टूबर 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्थायी निजी सचिव, श्री वाई. सुब्बा राव की रु. 15,600--39,100+6,600/- (संशोधित वेतनमान में) प्रमुख निजी सचिव के रूप में की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्व निबन्धनों और शर्तों सहित दिनांक 27 नवम्बर 2008 पूर्वाह्न से अगले वर्ष दिनांक

26 नवम्बर 2009 तक या अगले आदेश तक या इस प्राधिकरण की समाप्ति तक, जो भी पूर्व घटित हो बढ़ा दी गई है।

दया नन्द, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2008

सं. ए-45011/02/2005-स्था-I:--वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत, श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा (चयन सूची वर्ष 1990, एससी एसएल सं. 243) का नाम कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के का. जा. सं. 5/25/2004-सीएस-I (एस) के तहत वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोट) की चयन सूची में नाम सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 12 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्ति करते हैं।

सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उक्त व्यक्ति की नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में संघ सरकार के विरुद्ध दायर लिखित याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 तथा श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में संघ सरकार के विरुद्ध दायर ओए सं. 1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 के फैसले के अध्वधीन होगी। उपरोक्त अधिकारी को प्रदान किये जाने वाले गैर-क्रियाशील वेतनमान आदि जैसे वित्तीय लाभ उपरोक्त दो न्यायालयों के मामलों के फैसले के अध्वधीन होंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्तूबर 2008

सं. ए-45011/07/2006-स्था-I:--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के का. जा. सं. 5/1/2008-सीएस-I (एस) के द्वारा वर्ष 2004 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में उनका नाम सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 12 अगस्त 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सहायक की एससीएसएल सं./चयन सूची वर्ष	उन विभाग/कार्यालय का नाम जहां वर्तमान में अधिकारी तैनात है
1	2	3	4
सर्व/श्री			
1.	विनोद कुमार	1/1991	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	श्रीमती निर्मल बहल	48/1991	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
3.	आर. के. झा	49/1991	भारी उद्योग विभाग

सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में इन व्यक्तियों की नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र द्वारा संघ सरकार के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर लिखित याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 तथा श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष संघ सरकार के विरुद्ध दायर ओए सं. 1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 के फैसले के अध्वधीन होगी। उपरोक्त अधिकारी को प्रदान किये जाने वाले गैर-क्रियाशील वेतनमान आदि जैसे वित्तीय लाभ उपरोक्त दो न्यायालयों के मामलों के फैसले के अध्वधीन होंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. ए-32011/04/2008-स्था:--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त 2008 के का. जा. सं. 5/25/2004-सीएस-I (एस) की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक, श्री के. के. गुलाटी (31 अक्तूबर 2007 को सेवानिवृत्त) को वर्ष 2003 के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड (वरिष्ठता कोट) की चयन सूची के प्रति 6,500-10,500/- (पूर्व संशोधित) रूप के वेतनमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. ए-12025/01/2008-स्था./ई. ओ. पी.:--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में उप निदेशक श्री एस. के. वाधवा, को दिनांक 17 नवम्बर 2008 से 31 जुलाई 2009 तक, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पे-बैंड-3 में 15,600--39,100+7,600/-रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री वाधवा को नियमित नियुक्ति के लिए अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

बाबू राम, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2008

सं. ए-38012/06/2008-स्था-I:--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री आर. के. सागर 01 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 नवम्बर 2008

सं. ए-12022/01/2007-स्था-I:--राष्ट्रपति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री अधीर झा, आई. आर. एस. (आई.टी. 90) को 12 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से पी. बी.-4, रुपए 37,400-67,000+ 8,700/- के वेतनमान में 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 04 नवम्बर 2008

सं. टी. एम.01/03/2007:--राष्ट्रपति द्वारा श्री कृष्णन्दु बंधोपाध्याय, श्री लखीदास मुंडा और श्रीमती पुष्पिता मलिक, वैज्ञानिक अधिकारियों को राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता में 26 सितम्बर, 2008 से 15,600-39,100/-रुपये के वेतनमान में पी. बी.-3 में 5,400/-रुपये के ग्रेड वेतन साथ नैटमो में अनुसंधान अधिकारी, जी.सी.एस., समूह 'क', राजपत्रित के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सी. पी. कत्याल, अवर सचिव

सं. टी. एम.01/02/2007:--राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता में अनुसंधान अधिकारी श्री बलराम डे को 26 सितम्बर, 2008 से 15,600-39,100/-रुपये के वेतनमान में पी. बी.-3 में 6,600/-रुपये के ग्रेड वेतन के साथ नैटमो में उप निदेशक, जी.सी.एस., समूह 'क', राजपत्रित के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सी. पी. कत्याल, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. 38018/01/2008-भा.व.से.-I:--राष्ट्रपति, संयुक्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम, संघ शासित प्रदेश के 1975 वैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री सी. रामलूता को अखिल भारतीय (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2ए) के अनुसार 31 अक्टूबर, 2008 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

विवेक सक्सेना, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. ए-46011/32/2008-सीएचएस-II:--साउथ एवेन्यू, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली में वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग में वरिष्ठ प्रशासन ग्रेड के अधिकारी डा. भीमसेन बेहरा का निधन 10 सितम्बर 2008 को काम करते हुए हो गया।

माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 20 नवम्बर 2008

सं. ए-12025/38/2006-सीएचएस-IV:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) रूपी जामवाल को 26 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेष उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकिरण निदान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/47/1992-सीएचएस-III:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. डी. एन. मिश्रा को 14 दिसम्बर, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेष उप-संवर्ग में डॉ. बी. और सी. डी. की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/01/2008-सीएचएस-III:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अशोक कुमार सिंह को 12 अगस्त, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेष उप-संवर्ग में डॉ. बी. एंड सी. डी. की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. ए-12025/12/2005-सीएचएस-III:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विषेक आर्य को दिनांक 29 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेष उप-संवर्ग में मेडिसिन की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

सं. 27-2669/2008-स्था.-I:--राष्ट्रपति, श्री गोकुल चन्द्र पाति, आई.ए.एस. (आधार:78) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 22,400-525-24,500/- रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 7 अक्टूबर 2008 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2008

सं. 32011/05/2008-स्था.-II.--राष्ट्रपति, डॉ. अनिल प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त (फसल) कृषि एवं सहकारिता विभाग को उपायुक्त (फसल) के पद पर 12,000-375-16,500/-रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में 26 सितम्बर 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2008

सं. 38017/01/2008-विपणन-I.--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री हर प्रसाद, संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, दिनांक 31 अक्टूबर 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधेश्याम, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2008

सं. ए-19011/09/2008-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 27 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/14/2008-ई.ओ. (एम.एम.-I) के अनुसरण में, सुश्री अनिता सिन्हा, आई.आर.एस. (आई.टी.-90) ने 16 सितम्बर, 2008, पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्कृति मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अ. मुरुगैयन, अवर सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2008

सं. ए-19011/12/2008-स्था.-I.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (नियुक्ति संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति का सचिवालय) के दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के आदेश सं. 16/13/2008-इओ (एसएम-I) के जरिए सचिव, संस्कृति मंत्रालय के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री जवाहर सरकार, आई.एस. (पश्चिम बंगाल : 75) ने दिनांक 03.11.2008 (पूर्वाह्न) से संस्कृति मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 नवम्बर 2008

सं. 12014/17/99-बी.सी.-I.--राष्ट्रपति, श्री इगनासीयुस टोपनो, उप सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मण्डल में वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्थान पर आधिकारिक निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के. किपगेन, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 नवम्बर 2008

सं. 2(10)/2008-का.-I.--राष्ट्रपति जी ने श्री एस. आर. राव, आई.एस. (गुजरात : 1978) को दिनांक 14.11.2008 के पूर्वाह्न से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 12,000/- रुपए (ग्रेड वेतन) सहित 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) के वेतनमान में अपर सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. पीएफ/1660/एनआईसी/2008-प्रशासन-I.--राष्ट्रपति, एतद्वारा डॉ. राकेश गोयल, कर्मचारी कोड सं. 1660 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, बिहार राज्य एकक पटना से वैज्ञानिक "एफ" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 11 नवम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1209/एनआईसी/2008-प्रशासन-I.--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री जॉर्ज वर्गीस, कर्मचारी कोड सं. 1209 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय नई दिल्ली से वैज्ञानिक "सी" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 14 नवम्बर, 2008 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/260/एनआईसी/2008-प्रशासन-I.--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री राज कुमार रैना, (कर्मचारी कोड सं. 260) की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय नई दिल्ली से वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 नवम्बर 2008

सं. 1-6/2007-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/1/2007-सीएस.-I(डी) दिनांक 07.11.2007 के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने डाक विभाग में सीएसएस तदर्थ चयन ग्रेड (डीएस) में श्री बी. आर. चुप को वर्ष 2002 के सीएसएस चयन ग्रेड (डीएस) में नियुक्ति के लिए पात्र पाया है।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. ए-60011/004/2006-वीई(खण्ड-II).--राष्ट्रपति, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या-7030/2008 के अधीन, डा. एस. एन. ए. जैदी, आईएएस (उत्तर प्रदेश-76) की 12,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित पे बैंड पीवी-4-37,400/- -67,000/- रुपये (22,400-525-24500/- रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान) के वेतनमान में दिनांक 17.11.2008 पूर्वाह्न से 08.01.2010 तक की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नागर विमानन महानिदेशक के रूप में नियुक्ति करते हैं।

हेमन्त राव, निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. ई(ओ)-III/2008/आरएन/32.--राइड्स में स्थायी समाप्ति होने के परिणामस्वरूप, श्री के. के. गुप्ता, व.प्र.ग्रे./भा.रे.इंजी.से. ने 20.10.2008 से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.वी.-1/2008/14/24--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 10,000--15,200/- रुपये पूर्व संशोधित), श्री आर. सी. दूबे को 04.11.2008 के पूर्वाह्न से बारबीएसएसएस के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 12,000--16,500/- रुपये पूर्व संशोधित) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2008

सं. 12025/05/2003-स्था.--राष्ट्रपति, श्री डी. जे. वासू, सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) की, उप सचिव (अभियांत्रिकी) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित (असचिवालयिक), तदर्थ आधार पर नियुक्ति 10,000-325-15,200/- रुपये (पूर्ववत्) पुनरीक्षित पीवी-3 15,600--39,100+ग्रेड पे-6,600/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 16.06.08 से 16.12.2008 अथवा नियमित नियुक्ति इस पद पर, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. ए-32019/2/2008-एमए.--राष्ट्रपति, सुश्री लक्ष्मी वैकटचलम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कनॉटक-78) को 12.11.2008 (पूर्वाह्न) से

अगले आदेशों तक, भारत-सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतनमान में नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में नौवहन महानिदेशक नियुक्त करते हैं।

आर. एन. त्रिपाठी, उप सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2008

सं. 2008, फा. संख्या 3/10/2006-स्थापना-एक-1.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी श्री ए. के. गंजू को नियमित रूप से पदोन्नति पर उसी सेवा में उच्च प्रशासनिक श्रेणी में रुपये 22,400-525-24,500/- (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में दिनांक 27.06.2008 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

के. राजप्पा, अवर सचिव

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

सं. एन-11027/1/2005-यूपीए-III.--राष्ट्रपति की ओर से शहरी विकास मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री एम. जयचन्द्रन को, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप-निदेशक (जेएनएनयूआरएम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को आगे 6 माह के लिए 25.07.2008 (पूर्वाह्न) से 24.01.2009 तक अथवा निर्दिष्ट आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

2. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) उप-मिशन के निदेशालय में वेतन बैंड पीवी-3, 15,600-39,100+6,600/- रुपये (ग्रेड वेतन) (संशोधित वेतनमान) 10,000-325-15,200/- रुपये (संशोधित पूर्व वेतनमान) में उप-निदेशक (संवर्ग वाह्य) को एक रिक्ति के लिए उपयुक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे अधिकारी को अनिश्चित समय के लिए पद पर बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता अथवा उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति इत्यादि के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा। सरकार को संबंधित अधिकारी को बिना कोई कारण बताए अथवा बिना सूचना दिए तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

आर. के. कुमानिया, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 17 नवम्बर 2008

सं. डीजीईटी-ए-38013/1/2008-टीए-1.--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री अमरजीत सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी दिनांक 31.10.2008 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। दिनांक 31.10.2008 (अपराह्न) से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की नामावली से उनका नाम हटा दिया गया है।

आर. के. आहलूवालिया, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th November 2008

No. RS/3/1/2008/80-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Chandra Bhan Rai, Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 22nd November, 2008, until further orders.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

No. RS/3/1/2008/81-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Gurnam Singh, Deputy Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 22nd November, 2008, until further orders.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

No. RS/3/1/2008/82-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Monica Baa, Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- (provisional) plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 22nd November, 2008, until further orders.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 28th August 2008

No. PF.75-R(7)/GN-6096/AN-I/2008.—Shri Kshetrabasi Jena, Deputy Secretary-I passed away on 20th August, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 2nd September 2008

No. PF.924-R(3)/GN-6100/AN-I/2008.—In continuation of Notification No. PF. 924-R(3)/GN-5972/AN-I/2007 dated 1st October, 2007, the term of deputation of Shri K. V. Jagannatha, Joint Director (Reporting) Grade-I as OSD to Governor of Karnataka is extended for a further period of one year with effect from 21st August, 2008 upto 20th August, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 15th September 2008

No. PF.3-R(3)/GN-6102/AN-I/2008.—The Speaker is pleased to appoint Shri S. K. Sharma, Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 12,000/- (provisional) as Secretary in the scale of pay of Rs. 80,000/- (fixed) (provisional) with effect from 12th September, 2008 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 23rd September 2008

No. PF.114-R(3)/GN-6103/AN-I/2008.—On reversion from deputation to Parliament of Nauru, Shri Sanjeev Sharma has resumed duty in this Secretariat as Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- (Provisional) with effect from the forenoon of 11th September, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 26th September 2008

No. PF.786-R(3)/GN-6104/AN-I/2008.—The services of Dr. D. K. Singh, Joint Director (LARRDIS) Grade-I who was on deputation as OSD on the personal staff of Minister of Agriculture and Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Sharad Pawar) are placed at the disposal of Board of Control for Cricket in India (BCCI) on deputation basis with effect from the forenoon of 26th September, 2008 for his appointment as OSD on the personal staff of President, Board of Control for Cricket in India and Organising Committee Chairman, 2011 World Cup Cricket.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 10th October 2008

No. PF.6-R(3)/GN-6107/AN-I/2008.—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Secretaries in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 10,000/- (provisional) as Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 12,000/- (provisional), in the order as shown below, with effect from 8th October, 2008, until further orders :—

1. Shri R. C. Ahuja
2. Shri V. K. Sharma

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 13th October 2008

No. PF.87-R(3)/GN-6108/AN-I/2008.—Shri Vipin Kumar, Deputy Secretary Grade-II stands relieved of his duties in this secretariat with effect from forenoon of 14th October, 2008 and thereafter his services are placed at the disposal of National Highways Authority of India, Ministry of

Shipping, Road Transport and Highways for his appointment as Deputy General Manager (Legal) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis for a period of 4 years.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 15th October 2008

No. PF.2273-R(3)/GN-6109/2008/AN-I.—Consequent upon his selection to the post of Stenographer in Ministry of External Affairs, the resignation tendered by Shri Chander Mohan from the post of Parliamentary Reporter Grade-II in this Secretariat has been accepted with effect from the afternoon of 15th October, 2008 and thereafter he stands relieved of his duties in this Secretariat.

2. He shall not have any lien whatsoever in this Secretariat. However, he would be entitled to the benefits of his services rendered in this Secretariat under Rule 26(2) of the CSS (Pension) Rules, 1972.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 16th October 2008

No. PF.15/28/2004/GN-6110/AN-I.—The services of Shri P. K. Bhandari, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Defence (Shri Balasaheb Vikhe Patil) are terminated with effect from the afternoon of 31st August, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 21st October 2008

No. F.15/28/2004/GN-6111/AN-I.—Shri K. K. Bhatnagar is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600--39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- (Provisional) on the personal staff of Chairman, Committee on Defence (Shri Balasaheb Vikhe Patil) with effect from 1st September, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri K. K. Bhatnagar to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Defence.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Defence.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 27th October 2008

No. F.15/24/2004/GN-6115/AN-I.—Shri J. C. Joshi, who is working as First Personal Assistant on the personal staff of Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri L. K. Advani) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay Rs. 5,400/- (Provisional), is designated as Assistant Private

Secretary to Leader of Opposition, Lok Sabha with effect from 6th October, 2008, until further orders :—

ABHIJIT KUMAR, Dir.

No. F.15/24/2004/GN-6116/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajesh Sarma as First Personal Assistant on the personal staff of Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri L. K. Advani) in the scale of pay of Rs. 9,300--34,800/- (PB-2) + Grade Pay Rs. 5,400/- (Provisional), on co-terminus basis with effect from 6th October, 2008, until further orders.

2. The appointment of Shri Rajesh Sarma on the personal staff of Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri L. K. Advani) will be on tenure basis and during the pleasure of the present Leader of Opposition, Lok Sabha.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 4th November 2008

No. PF.154R(3)/GN-6117/2008/AN-I.—Dr. Satya Prakash, Under Secretary stands relieved of his duties in this Secretariat with effect from afternoon of 4th November, 2008 and thereafter his services are placed at the disposal of Ministry of Finance, Department of Financial Services for his appointment as Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai on deputation basis for a period of three years.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd October 2008

No. A-19013/05/2008-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri Puneet Agarwal, IAS (MT : 98) as Deputy Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from forenoon of 20th October, 2008 for a period of four Years and until further orders, whichever event takes place earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 30th October 2008

No. K-13012/4/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ashok Kumar Roopanwal, Additional Judge of the Allahabad High Court, to be a Judge of the Allahabad High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13032/1/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Vijay Kumar Bist and (ii) Shri Sudhanshu Dhulia, to be Judges of the Uttarakhand High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13026/3/2008-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Abhijit Sinha, Additional Judge of the Patna High Court, to be a Judge of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-11019/3/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice A. P. Subba, Seniormost Judge of the Sikkim High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 31.10.2008 consequent upon the retirement of Shri Justice Ajoy Nath Ray, Chief Justice of the Sikkim High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 31st October 2008

No. K. 13016/2/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sudershan Kumar Misra, Additional Judge of the Delhi High Court, to be a Judge of the Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13028/2/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Guman Singh, (ii) Shri Justice Bhanwaru Khan Parian, (iii) Shri Justice Deo Narayan Thanvi, (iv) Shri Justice Raghuvendra Singh Rathore, (v) Shri Justice Mahesh Chandra Sharma, (vi) Shri Justice Sangeet Raj Lodha, and (vii) Shri Justice Munishwar Nath Bhandari, Additional Judges of the Rajasthan High Court to be Judges of the Rajasthan High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 3rd November 2008

No. K. 13020/1/2008-US. II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 100-A of the

Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint. (i) Shri Muzaffar Hussain Attar and (ii) Shri Vinod Kumar Gupta, to be Additional Judges of the Jammu & Kashmir High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 12th November 2008

No. 14046/47/2008-UTS-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) has accepted the notice of voluntary retirement dated 13th August, 2008 of Shri Surender Pal (Date of Birth : 11.10.1952), Entry Grade officer of DANICS and permitted him to retire voluntarily under Rule 48 (1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 13th November, 2008.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 17th November 2008

No. 14016/1/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Jt. Secy. (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) on probation for a period of two years with effect from 14th November, 2008 :—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Sehdev Singh	D-I-665	01.05.1954
2.	Harish Kumar	D-I-666	19.05.1953
3.	Hari Darshan	D-I-65	04.01.1954

2. The appointment of the above mentioned 3 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007—Jagdish Chand Vs. Union of India and Anr. and CWP No. 11356-62/2006-J. K. Jain & Ors. Vs. UOI & Ors. in the Hon'ble High Court of Delhi.

J. K. SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 12th November 2008

No. A-12011/3/2008-Ad. 1—Shri T. J. Banerjee, an officer of Central Secretariat Service and working as Deputy Secretary, MRTD Commission in the Ministry of Corporate Affairs retired from government service w.e.f. 30.09.2008 on attaining the age of superannuation.

R. C. TULLY, Under Secy.

The 20th November 2008

No. A-32011/107-Ad. I—In pursuance to Department of Personnel and Training O. M. No.-5/12/2007-CS. II dated 05.11.2008. Shri K. C. Chandna and Sushma Sikri, regular Steno Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Information and Broadcasting and presently working as Steno Grade 'A' and 'B' (Merged) of CSSS on ad hoc basis in the Ministry of Corporate Affairs are appointed as Steno Grade 'A' and 'B' (Merged) of CSSS on regular basis for the Select Year 2005 in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 19.11.2008.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 19th November 2008

No. 14015/13-2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. Akhilesh Kumar Shrivastava, a member of the State Civil Service of Madhya Pradesh Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2008 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Madhya Pradesh Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of above officers is subject to the final decision in O. A. No. 375/2008 filed by Madhya Pradesh Indian Administrative Service Officers Association before the Hon'ble CAT, Jabalpur Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 5th November 2008

No. F 24012 2/2005-PA—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 and in supersession of this Ministry's Notification number F. 24012/2/2005-PA dated 28th July, 2008 the following Officers are deisgnated as

Central Public Information Officers in respect of matters pertaining to Ministry of Overseas Indian Affairs :—

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Shri Mithlesh Kumar
Dy. Secy. (FS) | All matters relating to Ministry of Overseas Indian Affairs, other than emigration related issues |
| 2. | Shri Vijay Bahadur Singh
Director (ES) | All matters relating to the office of Protector General of Emigrants and Offices of Protectors Emigrants |

M. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th September 2008

No. of 2008 (F. No. A-32014/01/2008-Ad. 1A)—In pursuance of Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O. M. No. A-12025/2/2004-CAS dated 10.09.2008, the President is pleased to appoint Smt. Anita Gianey, a regular Steno Grade 'C' of the cadre of Ministry of Home Affairs as Steno Grade A & B (merged) (deisgnated as Private Secretary) of CSSS on regular basis w.e.f. 22.08.2008 (F.N.) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) in the Ministry of Finance, Department of Revenue.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2008

No. 4/2008 (F. No. 21/29/2006-AD. 1C)—The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, formerly working as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, as Administrative Officer in the Income Tax Settlement Commission (IT/WT), Principal Bench, New Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) with effect from the forenoon of the 16th October, 2008.

S. K. TYAGI, Director

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(CURRENCY & COINAGE)

New Delhi, the 20th November 2008

No. 6(7)/2006-Cy. 1 (SPM)—The President is pleased to appoint Shri R. Krishnamurthy, Deputy Chief Engineer (Electrical) (since retired), Security Paper Mill, Hoshangabad to the post of Chief Engineer in the pay scale of Rs. 12,000-16,500/- (pre-revised) in the Security Paper Mill, Hoshangabad on regular promotion basis from 28.06.2006 to 30.06.2006 (i. e. the date of his retirement on superannuation).

A. K. AJMANI, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 12th November 2008

No. 13/9/2003-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri Narendra Kumar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Lucknow, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, in addition to his own charge, with immediate effect.

A.THOMAS, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th November 2008

No. A-19011/256/2005-Estt.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Suraj Mal, Assistant in the Ministry of Defence, Office of J. S. (T) & CAO, New Delhi as Accounts Officer in the Department of Financial Services, Ministry of Finance for the fourth year i.e. from 15.10.2008 to 14.10.2009 or until further orders whichever is earlier.

BAL RAM, Under Secy.

No. A-19012/169/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Sharma, Assistant of CSS of the cadre of Ministry of Finance to the Section Officer Grade on ad-hoc basis in Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 30th October, 2008 and initially upto 31.12.2008 or until further orders.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad-hoc appointment being a stop gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- (ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer Grade are available either either through Seniority Quota/Limited/Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders.

BAL RAM, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 31st October 2008

No. A. 12026/5/2005-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash (CSS) as Joint Secretary (SIU) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) by in-situ upgradation of the Posts of Director presently held by him with effect from the forenoon of the 30th October, 2008.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 14th November 2008

No. A. 12026/5/2007-Ad. I—In continuation of this Department's notification of even number dated 27th August, 2008, the President is pleased to extend the tenure of Shri Alok Saxena, IPOS (1989), as Director (Implementation Cell) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band (4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) by six months with effect from 01.10.2008 upto 31.03.2009.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 19th November 2008

No. A. 12026/5/2005-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Shaktikanta Das, IAS (TN : 1980) as Joint Secy. (Pers.) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 19th November, 2008 for a period of five years or until further orders, whichever event takes places earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. A-32014/1/2008-Ad. II—The President is pleased to appoint the following Assistant Deputy Directors in the Staff Inspection Unit of this Department to the five posts of Deputy Director in the PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/- on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 18.11.2008 :—

Sl. No.	Name
	S/Shri
1.	B. L. Sharma
2.	Ravinder Kumar
3.	S. N. Sharma
4.	Kulbir Singh
5.	S. C. Tyagi

MEETALI GHOSH, Under Secy.

APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110001, the 24th November 2008

No. 1/5/2006-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated 31.10.2007, the term of deputation of Shri Y. Subba Rao, a pmt Private Secretary of the Ministry of Agriculture, Deptt of Agriculture & Cooperation, as Principal Private Secretary (PPS) in this Authority on deputation basis in the revised scale (PB-3) of Rs. 15,600—39,100 + Rs. 6,600 is extended for a further period of one year w.e.f. 27.11.2008 (F.N.) to 26.11.2009 or till abolition of this Authority or until further orders, whichever is earlier, on the same terms and conditions.

DAYA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &
PROMOTION)

New Delhi, the 16th September 2008

No. A.45011/02/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003, vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/25/2004-CS.I(S) dated 12.8.2008 the President is pleased to appoint Shri Gazender K. Verma, (Select List year 1990, SCSL No. 243) presently officiating as Section Officer on ad-hoc basis, as Section Officer on regular basis in the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 12.8.2008, until further orders.

The appointment of the person to the Grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of Writ Petition (c) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander vs UOI before the High Court, Delhi and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha vs UOI before the Central Administrative Tribunal, New Delhi. Financial benefits like the Non Functional Scale etc. to be granted to the above officers shall be subject to the outcome of the above mentioned two Court Cases.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 14th October 2008

No. A.45011/07/2006-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2005, vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/1/2008-CS.I(S) dated 12.8.2008 the President is pleased to appoint the following officers as Section Officer on regular basis in the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), with effect from the forenoon of 12.8.2008, until further orders :—

S. No.	Name	SCSL No./SL year of Asstt.	Name of Deptt./ Office where presently posted
1.	Shri Vinod Kumar	1/1991	Deptt. of IPP
2.	Smt. Ninnal Behl	48/1991	Office of E.A.
3.	Sh. R. K. Jha	49/1991	Deptt. of H.I.

The appointment of these person to the Grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of Writ Petition (c) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander vs UOI before the High Court, Delhi and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha vs UOI before the Central Administrative Tribunal, New Delhi. Financial benefits like the Non Functional Scale etc. to be

granted to the above officers shall be subject to the outcome of the above mentioned two Court Cases.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 12th November 2008

No. A.32011/4/2008-Estt. In terms of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/25/2004-CS.I(S), dated 12.08.2008, the President is pleased to appoint Shri K. K. Gulati, Assistant (retired on 31.10.2007) of Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of CSS in the Ministry of Petroleum and Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-10,500 (pre-revised) against the Select List of Section Officer's Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 17th November 2008

No. A-12025/1/2008-Estt. FOP—The President is pleased to appoint Shri S. K. Wadhwa, Deputy Director, in the Directorate of Varaspan, Vegetable Oils and Fats, Department of Food and Public Distribution, to the post of Director in the PB-3 Rs. 15,600 – 39,100 + Rs. 7,600 w.e.f. 17-11-2008, on ad-hoc till 31 July 2009 or till the post is filled up on regular basis or till further orders whichever event takes place earlier.

The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely for regular appointment or claim to seniority in the grade.

BABOO RAM, Dy. Secy.

New Delhi, the 11th November 2008

No. A-38012/6/2008-E.I.—Sh. R. K. Sagar, Deputy Secretary of CSS in the Department of Food and Public Distribution retired voluntarily from service with effect from the forenoon of the 1st November, 2008.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

The 12th November 2008

No. A-12022/1/2007-E.I. The President is pleased to appoint Shri Adhir Jha, IRS (IT: 90) as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 12th November, 2008 in the PB-4 Rs. 37,400 – 67,000 + Rs. 8,700 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 4th November 2008

No. TM/01/03/2007—The President is pleased to appoint Sh. Krishnendu Bandopadhyay, Sh. Lakhidas Munda and Smt. Puspita Mallick, Scientific Officers in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata as Research Officer, G.C.S., Group 'A', Gazetted in NATMO in the pay scale of Rs. 15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-3 w.e.f. 26th September, 2008.

C. P. KATYAL, Under Secy.

No. TM/01/02/2007—The President is pleased to appoint Sh. Balaram Dey, Research Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata as Deputy Director, G.C.S., Group 'A', Gazetted in NATMO in the pay scale of Rs. 15,600-39,100/- with Grade pay of Rs. 6,600/- in PB-3 w.e.f. 26th September, 2008.

C. P. KATYAL, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 31st October 2008

No. 38018/1/2008-IFS.I—The President is pleased to permit Shri C. Ramhluna, an IFS officer of 1975 batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with effect from the afternoon of 31st October, 2008 in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

VIVEK SAXENA, Dir.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th November 2008

No. A.46011/32/08-CHS.II—Dr. Bhimsen Behera, SAG officer of General Duty Sub-cadre of Central Health Service posted as Sr. CMO, South Avenue, CGHS, New Delhi died in harness on 10.09.2008.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 20th November 2008

No. A.12025/28/2006-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Rupī Jamwal to the post of Specialist Grade II (Radio-Diagnosis) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 26th December, 2006 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A.12025/47/92-CHS.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. D. N. Misra to the post of Assistant Professor in the speciality of T. B. & C. D. in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 14.12.2001 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A.12025/1/08-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar Singh to the post of Assistant Professor in the speciality of T. B. & C. D. in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 12.8.2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 24th November 2008

No. A.12025/12/2005-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vivek Arya to the post of Assistant Professor in the speciality of medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 29th May, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 10th October 2008

No. 27-2669/2008-E.I—The President is pleased to appoint Shri Gokul Chandra Pati, IAS (OR : 78) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 (pre-revised) w.e.f. the afternoon of 7th October, 2008 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th November 2008

No. 32011/05/2008-E.II—The President is pleased to appoint Dr. Anil Pratap Singh, Assistant Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation, to the post of Deputy Commissioner (Crops) in the pre revised pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 26th September 2008.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 19th November 2008

No. 38017/1-08-M-1—On attaining the age of superannuation Shri Har Prasad, Joint Agricultural Marketing Adviser, Head Office, Faridabad, Directorate of Marketing & Inspection, has retired from Govt. service on 31.10.2008 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 23rd September 2008

No. A-19011/9-2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/14/2008-EO (MM-1) dated 27th August, 2008, Ms. Anita Sinha, IRS (IT-90) has assumed the charge of Director in the Ministry of Culture in the forenoon of 16th September, 2008 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 4th November 2008

No. A-19011/12/2008-Estt.—Consequent on his appointment as Secretary, Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training (Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's) Order No. 16/13-2008-EO(SM-1) dated 31st October, 2008, Shri Jawhar Sircar, IAS (WB : 75) has assumed the charge of the post of Secretary, Ministry of Culture in the forenoon of 3rd November, 2008.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 10th November 2008

No. 12014/17/99-BC-I—The President is pleased to appoint Shri Ignatius Topno, Deputy Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation in place of Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment with immediate effect and until further orders.

K. KIPGEN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 14th November 2008

No. 2(10)/2008-P.I.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Rao, IAS (GJ : 1978) as Additional Secretary, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the pay of

Rs. 37,400-67,000 - (PB-4) plus Rs. 12,000/- (GP) with effect from the forenoon of 14.11.2008.

GIRISH SAHAJ, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 24th November 2008

No. PF/1660/NIC-2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Dr. Rakesh Goel, Emp. Code : 1660 from the post of Scientist "F", NIC-Bihar State Unit, Patna from the forenoon of 11.11.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

No. PF/1209/NIC-2008-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri George Varghese, Emp. Code : 1209 from the post of Scientist "C", of NIC-Hqrs., New Delhi from the forenoon of 14.11.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

No. PF/260/NIC/2008-Adm-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Raj Kumar Raina, Emp. Code : 260, from the post of Scientist "C", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 14.10.1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 5th November 2008

No. 1-6/2007-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 4/1/2007-CS.I(D) dated 07.11.2007, the competent authority has found Shri B. R. Chugh, ad-hoc Selection Grade (DS) of CSS in the Department of Posts fit for appointment to Selection Grade (DS) of CSS for year 2002.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th November 2008

No. A.60011-004/2006-VF (V.II)—The President is pleased to appoint Dr. S. N. A. Zaidi, IAS (UP : 76) as Director General of Civil Aviation on deputation basis, in the Pay Band PB-4—Rs. 37,400-67,000 with a grade pay of Rs. 12,000 (pre-revised pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/-) w.e.f. the forenoon of 17.11.2008 for a period upto 08.01.2010 or until further orders, whichever is earlier, subject to the writ petition No. 7030/2008 pending in the High Court of Delhi.

HEMANT RAO, Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th November 2008

No. E(O)III-2008/RN/32—Consequent upon his permanent absorption in RITES Shri K. K. Gupta, SAG/IRSE, has resigned from Railway service with effect from 20.10.2008.

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2008/14/24—Shri R. C. Dubey, Principal Private Secretary (Scale Rs. 10,000-15,200/- pre-revised) of Railway Board Secretariat Stenographer Service (RBSSS) has been promoted as Senior Principal Private Secretary of RBSSS (Scale Rs. 12,000-16,500/- pre-revised) with effect from the forenoon of 04.11.2008.

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 11th November 2008

No. A-12025/05/2003-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri D. J. Basu, Deputy Director (Engineering) (General Central Service 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 (pre-revised) now revised as PB-3 Rs. 15,600-39,100+ Grade Pay Rs. 6,600/- from 16.6.2008 (FN) for a period of six months (i.e. upto 16.12.2008) or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

P. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 25th November 2008

No. A-32019/2/08-MA—The President is pleased to appoint Ms. Lakshmi Venkatachalam, IAS (KN-78), as Director General of Shipping in the Directorate General of Shipping, Mumbai, in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 12.11.2008 (FN) and until further orders.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th November 2008

No. /2008, File No. 3/10/2007-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Ganju, a Senior Administrative Grade Officer of Central Water Engineering (Group 'A') Service, on promotion, on regular basis to the Higher Administrative Grade of the same Service, in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- (Pre-revised) with effect from 27.06.2008 (AN).

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 1st October 2008

No. N-11027/16/2005-UPA-III—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri M. Jayachandran, a regular Section Officer of the CSS cadre of the Ministry of Urban Development as Deputy Director (J.N.N.U.R.M.) on ad-hoc basis in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for a further period of six months from 25th July, 2008 (FN) to 24th January, 2009 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis against one vacancy of Deputy Director (Ex-Cadre) in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600-39,100 + Rs. 6,600 (Grade Pay) (Revised Scale) {Scale of Rs. 10,000-325-15,200 (Pre-revised Scale)} in the Directorate of the Sub-Mission of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and will not confer any right to the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc. The Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

R. K. KUMANIA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)

New Delhi-110001, the 5th November 2008

No. DGE&T.A-38013/1/2008-TA-I—On attaining the age of superannuation Shri Amarjeet Singh, Training Officer has retired from Government service w.e.f. 31.10.2008. His name has been struck off from the roll of the Directorate General of Employment & Training w.e.f. 31.10.2008 (AN).

R. K. AHLUWALIA, Under Secy.